

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

पत्रांक.....

दिनांक.....

5(स0) अपील M/s Maa Tara Food Packing Industries.- 23/2026

प्रेषक,

अवर सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

M/s Maa Tara Food Packing Industries., I.A. Donar, Darbhanga,  
Proprietor – Shri Sanjay Kumar,  
R/o Gandhi Nagar, Laxmi Sagar,  
Dist. – Darbhanga, Bihar - 847405

विषय:— दायर अपीलवाद सं0-23/2026 में पारित आदेश की प्रति भेजने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, विषयांकित अपीलवाद की सुनवाई दिनांक— 29.07.2026 को हुई।  
दिनांक— 29.07.2026 को पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। मामले की  
अगली सुनवाई दिनांक— 02.09.2026 को अपराह्न 5.00 बजे सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना  
द्वारा विकास भवन, तृतीय तल अवस्थित विभागीय सभागार में की जाएगी।

अतः उक्त निर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु ससमय उपस्थित होना सुनिश्चित किया जाय।  
अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-


अवर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक.....4268

दिनांक.....10-08-26

प्रतिलिपि:— प्रबन्ध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गांधी मैदान,  
पटना को दिनांक—29.07.2026 को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यार्थ प्रेषित/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग  
विभाग, बिहार, पटना को दिनांक— 29.07.2026 को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ विभागीय  
वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

 10/08/26

अवर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना




**Government of Bihar**

**Office of the Secretary, Department of Industries, Bihar, Patna.**

**Appeal No.-23/2026 M/s Maa Tara Food Packaging Industries., I.A. Donar, Darbhanga Vs. BIADA & Ors.**

**Ordersheet**

Schedule- 14 Form No. 562

| Serial No. and Date of Order | Order and Signature of the Officer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Remarks |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       |
| 02<br>29.07.2026             | <p>Ld. Counsel for the appellant and DGM, Legal, BIADA are present.</p> <p>Ld. Counsel for the appellant submitted that the land was allotted on 24.12.2019 for manufacturing of food items and salted snacks etc. Due to non-payment of dues, allotment of the unit has been cancelled and requested that the appellant may be allowed to pay the dues in 3-4 installments as the unit is fully operational.</p> <p>DGM, Legal appearing on behalf of BIADA objected and stated that during inspection neither electricity bill provided nor GST was provided even no raw material was found. An outstanding dues of Rs. 6.68 lacs are still pending.</p> <p>Since the inspection report submitted by BIADA is without any photographs of the unit. Hence, BIADA is directed to make fresh inspection and submit a report along with photographs and proof of production.</p> <p>Put up on 02.09.2026.</p> <p><br/>(Kundan Kumar)<br/>Secretary,<br/>Department of Industries,<br/>Bihar, Patna</p> |         |